



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 1982 भाद्र 30, 1904

No. 423] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1982/BHADRA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1982

का० भा० 682(अ) -- 18कक/आई डी०आर०ए०/82--- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०भा० 541 (अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 22 सितम्बर, 1979, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) पश्चिमी बंगाल सरकार के रुण और बन्व उद्योग विभाग जिसे अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग कहा जाता है, के सचिव, कलकत्ता को मैसर्स आईरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक सम्पूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध तीन वर्ष की अवधि 21 सितम्बर, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए ग्रहण करने के लिए प्राप्तिवत किया था।

747GI/82

(1)

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 21 सितम्बर 1983, तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, कि एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 4(12)/76-सी०यू०एस०]

ए०पी० सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st September, 1982

S.O. 682(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 541(E)/18AA/IDRA/79, dated the 22nd September, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, now known as Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, Calcutta, to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs National Iron and Steel Company Limited, Howrah, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), for a period of three years upto and inclusive of the 21st day of September, 1982;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 21st September, 1983.

[F. No. 4(12)/76-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.